

## कक्षा - 3 A

### पाठ-12 (जब मुझे साँप ने काटा )

#### कठिन शब्द

1. रेंगते
2. नारियल
3. खतरनाक
4. खबरदार
5. कराहते
6. निशान
7. झाड़ फूँक
8. तंत्र मंत्र
9. अद्भुत
10. छीनकर

#### शब्द अर्थ

1. चीखना - चिल्लाना
2. खबरदार - सावधान
3. तंत्र मंत्र - जादू टोना

#### 4. अद्भुत - अनोखा

लिंग बदलो

1. बूढ़ा - बुढ़िया

2. नाना - नानी

प्रश्न 1. नाना मुझे झाड़ फूँक वाले के पास क्यों ले गये?

उत्तर-नाना जी समझ रहे थे की मुझे साँप ने काटा है, इसीलिए वो मुझे झाड़ फूँक वाले के पास ले गये !

प्रश्न 2. लेखक बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था ?

उत्तर - लेखक बूढ़े आदमी को बताना चाहता था की मुझे साँप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है !

प्रश्न 3.जब साँप नारियल के खोल में घुस गया तो लेखक ने क्या किया ?

उत्तर -लेखक ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और खोल का मुँह बंद कर दिया!

प्रश्न 4.इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ?

उत्तर - इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है की हमे अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए!

प्रश्न 5. बूढ़ा आदमी कहाँ रहता था ?

उत्तर - बूढ़ा आदमी बाग और धान के खेतों को पार करके दूर एक झोंपड़ी में रहता था !

प्रश्न 6.लेखक ने कहानी का नाम जब मुझे साँप ने काटा क्यों रखा है ?

उत्तर - लेखक ने इस कहानी का यह नाम इसीलिए रखा है क्योंकि इसमे लेखक को साँप के न काटने पर भी, वही इलाज करवाना पड़ता है !

कक्षा -3 A

पाठ - 13 (मिर्च का मजा )

शब्द अर्थ

1. काबुलीवाला
2. मौसिम
3. चवन्नी
4. छिमीयां
5. कुंजडीन
6. रिसियाते
7. तबाही

### शब्द अर्थ

1. ज्यों त्यों - जैसे तैसे
2. सेर भर - एक किलो
3. तबाही - नुकसान

### वचन बदलो

1. कहानी - कहानियों
2. फली - फलियाँ
3. दाँत - दाँतों

### विलोम शब्द

1. पानी - आग

2. मीठा - खट्टा
3. सस्ता - मंहगा
4. बेवकूफ़ - होशियार
5. रोना - हँसना

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. काबुलीवाले के मुँह में किसको देखकर पानी भर गया ?

उत्तर - लाल एम मिर्च को देखकर काबुली वाले के मुँह में पानी भर गया !

प्रश्न 2. काबुलीवाले ने कितने रुपए दिये और कितनी मिर्च खरीदी ?

उत्तर - काबुलीवाले ने चवन्नी दी और एक किलो लाल मिर्च खरीदी !

प्रश्न 3. काबुलीवाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझा ?

उत्तर - काबुलीवाले ने लाल मिर्च को देखकर मौसम का कोई मीठा फल समझा और सोचा की इसे खाने से मुझे जरूर कोई बल प्राप्त होगा !

प्रश्न 4. सब्जीवाले ने क्या सोचकर उसकी झोली लाल मिर्च से भर दी होगी ?

उत्तर - सब्जीवाले ने सोचा होगा की यह तो सभी खाते हैं, उसने यह सोचा होगा की यह सारी खा जायेगा !

प्रश्न 5.सारी मिर्च खाने के बाद काबुलीवाले की क्या हालत हुई ?

उत्तर - सारी मिर्च खाने के बाद काबुलीवाले की हालत खराब हो गयी,उसकी आँखों से आँसू बहने लगे और उसकी जीभ लाल हो गयी !

प्रश्न 6. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ?

उत्तर - इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है की हमें लालच के चक्कर में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए !